

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर, हरदा, भिण्ड एवं विदिशा मध्यप्रदेश हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अमिताभ मिश्र**, अपर सचिव.

#### त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, हरदा

सेक्टर / जोन क्रमांक एवं मुख्यालय (1)	सेक्टर / जोन अधिकारी का नाम (2)	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र के क्रमांक का नाम (3)	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या (4)
1. सोनखेडी	श्री व्ही. पी. अहिरवार, सहा. यंत्री, जल संसाधन विभाग	1 सोनखेडी, 2 भुवनखेडी, 3 डगांवानीमा, 4 जिजगांव कलां, 5, 6 भुनास, 7 आलनपुर, 126, 127 आदमपुर, 124,125 गोगिया, 128, 129 नांदरा.	13
2. उडा कुलहरदा	श्री आर. बी. लोवंशी, उपयंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हरदा	17, 18, 19, 20 उडा, 21, 22, 23, 24, 25, कुलहरदा 26 भाटपरेटिया, 27 रूपीपरेटिया, 31, 32, 33 रन्हाईकला, 10, 11, 12, 13, 14 हरदाखुर्द एवं 8, 9 अबगांवखुर्द.	21
3. बैरागढ़	श्री मनमीत मंडराई, सहायक यंत्री, हंडिया शाखा नहर संभाग, टिम्रनी.	137 बैरागढ़, 138 खडीपुरा, 139 झाडपा नवीन, 34, 35 कडौलाउबारी, 36 सामरधा, 37 नीमगांव, 38 डोमनमउ, 43, 44 रहटाखुर्द.	10

(1)	(2)	(3)	(4)
4. मसनगांव	श्री आर. एन. चोलकर सहा. यंत्री, जल संसाधन, हरदा.	80, 81, 82, मसनगांव, 83 कांकरिया, 84, 85 कमताडा, 77, 78, 79 कमताडा, 132 बीड, 143, 144 केलनपुर, 73, 74 पलासनेर.	14
5. कुकरावद	श्री डी. आर. चौरे, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा. यां., हरदा.	28, 29, 30 कुकरावत, 71, 72 सुकरास, 75 खामाण्डवा, 76 बम्हनगांव, 45, 46, 47 बालागांव, 48 बूदडा, 141, 142 कनारदा.	13
6. गहाल	डॉ. एस. एन बांके, वरि. पशु चिकि., हरदा.	65, 66, 67 गहाल, 68, 69 डगावांशंकर, 70 घुरगाढ़ा, 53 मोहनपुर, 54 दूलीय, 61, 62, 63 मगरधा, 64 बरखेड़ी.	12
7. सिरकम्बा	श्री आर. के. सोनी, उपयंत्री, पचौला, उप नहर संभाग, हरदा	51, 52 सिरकम्बा, 49, 50 जिजगांव खुर्द, 55, 56 झाडपा, 57 रैसलपुर, 58 गुठानिया, 59 झिरी, 60 झल्लार, 140 नकवाडा.	11
8. नयापुरा	श्री आलोक कुमार दुबे, सहा. पंजीयक सहकारिता, हरदा	86, 87, नयापुरा, 97, 98 मांगरूल, 130, 131 सिंगौन, 145 साल्याखेडी, 146 चीराखान, 147 जोगाकला, 163 कांकडदा.	10
9. सोनतलाई	श्री रतनलाल प्रजापति, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, टिमरनी.	92, 93 सोनतलाई, 94 छिडगांव, 90 हनिफाबाद, 91 लोटिया 88, 89 बिछौलामाल, 148, 149 करनपुरा, 150 पाचातलाई, 151 पीपलघटा.	11
10. खेडा	श्री बी. एम. भट्ट, मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हरदा.	103, 104 खेडा, 95, 96 रातातलाई, 135, 136 अजनासरैयत, 114 भादूगांव, 115 देवास, 116 भवरतलाब, 152, 153 उवां.	11
11. हंडिया	श्री जी. चन्देलकर, सहायक संचालक मत्स्य, हरदा.	99, 100, 101, 102 हंडिया, 112 हीरापुर, 113 डूमलाय, 156 वैसवा, 157 साल्याखेडी.	08
12. बागरूल	श्री व्ही. एल. चौहान, सहा. यंत्री, जल संसाधन, हरदा	158 बागरूल, 159 कूसीया, 122 कोलीपुरा, 123 कुजंरगांव, 120, 121 रिजगांव, 133 खेडीनीपा, 134 भमौरी, 160 सुरजना, 161 अजनई.	10
13. रैलवा	श्री जी. एस. मालवीय, सहा. भूमि संरक्षण अधि., हरदा.	106, 107 रैलवा, 154, 155 पचौला, 162 झालवा, 105 कचबैडी, 108 धनगांव, 109 नीलगढमाल.	08
14. देवतलाब	श्री गोकुल प्रसाद सोनी, उप वनमंडलाधिकारी, उत्तर हरदा.	40 देवतलाब, 41 अतरसमां, 42 कोलवां, 15 पिडगांव, 16 मंजली 39 कायागांव, 117, 118, 119 अबगांवकला, 110, 111 बैडी.	11
15. रिजर्व	श्री गैदालाल माण्डवे, परियोजना संचालक आत्मा कृषि, हरदा.		
16. रिजर्व	श्री महेन्द्र कुमार सारंग, व्याख्याता शास. पालिटेनिक कालेज, हरदा.		
17. रिजर्व	श्री व्हाय. एस. यादव, उपयंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा.		

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, खिरकिया

सेक्टर / जोन क्रमांक एवं मुख्यालय (1)	सेक्टर / जोन अधिकारी का नाम (2)	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र के क्रमांक का नाम (3)	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या (4)
1. मांदला	सुश्री डॉ. कान्ता देशमुख, परियोजना अधिकारी बाल विकास परियोजना, खिरकिया.	11, 12, 13 मांदला, 15, 16 मुहालकलां, 120 पीपल्या भारत, 159 सक्तापुर, 124 कमताडी, 123 बारंगी, 121 काकडकच्छ, 122 लोनी, 14 हिवाला, 160 बाफला, 17 नीमसराय.	14
2. बारंगा	श्री व्ही. के. बछोतिया, ग्रंथपाल शासकीय कलां वाणिज्य महा., हरदा.	1 खमलाय, 168 काल्याखेडी, 3 बारंगा, 157 बडनगर, 133, 134 बम्हनगांव, 4 झांझरी, 2 हरपालिया, 158 सालाबेडी, 159 नीमखेडी माल.	10
3. पोखरनी	श्री बिलास पाटिल, सहा. संचा., कृषि हरदा.	26, 27, 28 पोखरनी, 174, 175 कालधड, 29, 30 पडवां, 127, 128, 129 कुडावा.	10
4. सारंगपुर	श्री बाबूराम लोखण्डे, उप संचा. कृषि, हरदा.	135, 136 सारंगपुर, 7, 8, 9 चौकडी, 10 लोधियाखेडी, 125, 126 पाहनपाट, 176, 177 नगावामाल, 5, 6 धनवाडा, 178 देवपुर.	13
5. टेमलावाडी	श्री एस. के. पचौरी, सहायक यंत्री, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, हरदा.	105, 106 डेडांवांमाल, 165, 166 कानपुर, 31, 32 टेमलावाडीमाल, 179, 180 जयमलपुरा, 46 प्रतापपुरा, 47 गोपालपुरा, 107, दासोदरपुरा, 33 टेमलावाडी रैयत, 167 सोभापुर.	13
6. चारूवा	श्री बैजनाथ यदुवंशी, कृषि विस्तार अधिकारी, खिरकिया.	34, 35, 36, 37, 38 चारूवा, 102, 103 जटपुरामाल, 40 सांगवामाल, 181, 182 सारसूद, 113, 114 बाबडिया, 39 हरीपुरामाल, 104 सोनपुरा.	16
7. मोरगढी	श्री बी. एस. चौहान, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, खिरकिया.	43, 44, 45 मोरगढी, 48, 49 जूनापानीभवरदी, 137, 138 मक्तापुर, 143 छुरीखाल, 145, 146 रामटेक रैयत, 50 भवरदी रैयत, 144 जामन्याढाना, 147 अजरूदरैयत, 139 भवरदीमाल.	14
8. सोमगांवकला	श्री ओ. एस. मर्सकोले, उप वन मण्डल अधिकारी, हरदा.	64, 65 सोमगांवकला, 154 नहालीकला, 98, 99 भगवानपुरा, 161, 162 कडोलाराधौ, 23, 24, 25 दीपगांवकला, 100 बिचपुरीसरकुलर, 101 केवलारी, 155 बिचपुरीमाल, 156 मुढासेल.	14
9. मुहाडिया	श्री पंकज सिंह, उप वन मण्डल अधिकारी, हरदा.	118 मरदानपुर, 163 कालकुंड, 18, 19, 20 रहटाकलां, 78, 79 मुहाडिया, 183 लोलांगरा, 119 धुपकरण, 164 भटपुरा, 184 विक्रमपुरखुर्द.	11
10. ढोलगांवकला	श्री एम. डी. अतुलकर, मुख्य कार्यपालन अधि. अन्तव्यवसायी, हरदा.	111, 112 पहटकलां, 21, 22 बैडियाकला, 61, 62, 63 आमासेल 108 ढोलगांवकला, 109 बैडियाखुर्द, 110 ढोलगांवखुर्द.	10

(1)	(2)	(3)	(4)
11. पिपल्याखुदिया	श्री अशोक श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, हरदा.	130, 131, 132 पीपल्याखुदिया, 91, 92 गोमगांव, 172 अमाखाल, 89, 90 जामुखो, 93 उमरी, 173 जामन्याकलां.	10
12. सिराली	श्री के. के. गुर्जर, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, हरदा.	68 से 77 सिराली, 80, 81 महेन्द्रगांव, 140 घनकार, 115, 116 रामपुरा, 94, 95, 96 जिनवानिया, 82 बाबडिया, 97 मानपुरा, 117 विक्रमपुरा कलां, 141 जातराखेडी, 142 दीपगांवखुर्द.	23
13. चिकलपाट	डॉ. एस. के. त्रिपाठी, पशु चिकित्सा अधिकारी, खिरकिया.	55 चिकलपाट, 148 जामन्याखुर्द, 59 कुकडापानी, 150 हसनपुरा, 152, 153 सांवलखेडा, 151 रकटया, 58 कुम्भीखेडा, 60 लफांगढाना 56 गेनाढाना, 57 सुन्दरपानी, 149 कोथमी.	12
14. खुदिया	श्री महेश गुप्ता, प्राचार्य जिला शिक्षा केन्द्र, हरदा.	66, 67 खुदिया, 85 सावरी, 83, 84 मकडाई, 51 जूनापानीमकडाई, 170 पटालदा, 171 नीमढाना, 36 झिरपी, 54 सोनपुरा, 87 आराया, 88 कालाकहू, 52 रिछाडिया, 53 नानी मकडाई.	14
15. रिजर्व	श्रीमती जाकिया जावेद, उप संचा. सामाजिक न्याय, हरदा.		
16. रिजर्व	श्री तुमुल सिन्हा, वरि. सहकारिता निरीक्षक, हरदा.		
17. रिजर्व	श्री जितेन्द्र भालेराव, उपयंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधि., हरदा.		

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 सेक्टर मजिस्ट्रेट, टिमरनी

सेक्टर / जोन क्रमांक एवं मुख्यालय (1)	सेक्टर / जोन अधिकारी का नाम (2)	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र के क्रमांक का नाम (3)	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या (4)
1. तजपुरा	श्री आर. के. यदुवंशी, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, टिमरनी.	5, 6, 7 छीपानेर, 8, 9 गोदागांवखुर्द, 12, 13 कुही 14, 15 तजपुरा, 16 भवरास, 17 बिल्लौद, 18 लाखाखेडी, 21, 22 करताना.	14
2. रूदलाय	डॉ. सोवाराम, वरि. पशु चिकित्सा अधि., हरदा.	19, 20 रूदलाय, 3 गुल्लास, 4 जलोदा, 34, 35 सन्नासा 1 लछोरा, 2 श्मशबाद, 36, 37 गोदागांवकला.	10
3. गोदडी	श्री अंजुल दौहर, सहा. यंत्री, हण्डिया शाखा, टिमरनी.	31, 32, 33 नोसर, 10 गाडामोडकला, 11 धौलपुरखुर्द, 26, 27 नयागांव, 23, 24 गोदडी, 25 काथडी.	10
4. पोखरनी	श्री जे. आर. रात्रे, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, टिमरनी.	41, 42, 43, 44 पोखरनी, 28, 29 बाजनिया, 30 गाडरापुरा, 38 अहलबाडा, 39 खरतलाय, 40 चौकडी.	10
5. रायबोर	श्री के. एस. मुझाल्दा, सहायक श्रमपदाधिकारी, हरदा.	51, 52, 53, छिदागांवमेल, 45, 46 बिच्छपुर, 47, 48 बघवाड, 49, 50 रायबोर, 54, 55 पिपल्याकला.	11
6. घोलपुरकला	श्री देवीप्रसाद वर्मा, सहा. संचा. कृषि.	56 सामरधा, 57 बारजा, 71 सौताडा, 72 निमचाकला, 87, 88 घोलपुरकला, 89, 90 उन्द्राकच्छ.	08

(1)	(2)	(3)	(4)
7. निमाचाखुर्द	डॉ. हरिओम पाटिल, वरि. पशु चिकित्सक, हरदा.	58, 59 चारखेडा, 60, 61 मालौना, 62, 63 निमाचाखुर्द, 66, 67 बरकला, 68, 69 मनियाखेडी, 80, 81 सोहागपुर, 70 भायली, 64, 65 खिडकी.	15
8. सोडलपुर	श्री एम. एल. मोरछले, उपयंत्री, हंडिया शाखा नहर संभाग, टिमरनी.	73 से 79 मोडलपुर, 82, 83 आलमपुर, 98 नादवां, 99 पडवा, 100, 101 सिरकम्बा, 102 बहरागांव.	14
9. दूधकच्छ	श्री आर. डी. पाटिल, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, टिमरनी.	84 गाडामोडखुर्द, 85 कालपी, 86 निम्यागांव, 110, 111 दूधकच्छ, 112, 113 पानतलाई, 114, 115 छिदगांव तमोली, 116, 117 फूलडी 118 धनगांव.	12
10. रहटगांव	श्री आर. एस. शर्मा, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, हरदा.	122 से 128 रहटगांव, 129 से 132 नजरपुरा, 107, 108 झाडबीडा, 109 पांडरमाटी.	14
11. खमगांव	श्री डी. के. मिश्रा, उपयंत्री, जल संसाधन विभाग, टिमरनी.	119 खमगांव, 120 कनगांव, 121 सिमखेडा, 136 कासरनी, 137 सिंगनपुर, 138 आमसागर, 139 धनपाडा.	07
12. टेमागांव	श्री सुरज सिंह टेकाम, सहायक यंत्री, हण्डिया शाखा, टिमरनी.	91, 92, 93 भादूगांव, 94, 95 टेमागांव, 96, 97 डोलरिया, 103 कपासी, 104 उसकल्ली, 105 वरूढघाट, 106 जिनवानी.	11
13. आम्बा	श्री लखनलाल वर्मा, सहा. संचालक जिला शिक्षा केन्द्र, हरदा.	133, 134 छीरपुरा, 135 जवारदा, 142 बोथी, 143 आम्बा, 144 मन्नासा, 140 बडवानी, 141 केलझिरी.	08
14. बडझिरी	श्री लक्ष्मण सिलोटे, जिला रोजगार अधि., हरदा.	155, 156 बडझिरी, 157 सिंगोडा, 152 बांसपानी, 153 बोबदा, 154 रूटूरुर्बा, 149 बंशीपुरा, 150 इन्द्रपुरा, 151 गांगराढाना, 189 लाखादेह, 190 वापचा, 191 चुनरी.	12
15. बोरपानी	डॉ. एस. सी. एल. वर्मा, वरि. पशु चिकि., हरदा.	180 बोरपानी, 181 जडकड, 182 पोषाढाना, 183 दिदम्दा, 186 रातामाटी, 187 बिटीया, 188 जूनापानी, 184, 185 मालेगांव.	09
16. कायदा	श्री राजेश सिंहल, सहायक यंत्री, हण्डिया शाखा, टिमरनी.	178 कायदा, 179 कुमरूम, 176 केली, 177 डेहरिया, 174, 175 र्वांग, 147 चन्द्रखाल, 148 गोरखाल.	08
17. राजबरारी	श्री ए. के. गुप्ता, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, हरदा.	162, 163 राजाबरारी, 164 उचबरारी, 165 बोरी, 166 ढेका, 158, 159 टेमरूबहार, 160 गुलरढाना, 161 चादीयापुरा, 145 कायरी, 146 महुखाल.	11
18. कचनार	डॉ. दिलीप केकरे, वरि. पशु चिकित्सक, हरदा.	171, 172 कचनार, 173 झिरन्या, 169 लोधीढाना, 170 डेबराबंदी, 167 पाटियाकुआं, 168 घोटी.	07
19. रिजर्व	श्रीमती अर्चना दीक्षित, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, हरदा.		
20. रिजर्व	डॉ. सर्वेश कुमार, विषयवस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदा.		
21. रिजर्व	सुश्री जागृति बोरकर, विषयवस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केन्द्र, हरदा.		